



ICAI/012/CP&GFM/TP – 15<sup>th</sup> FC State Nodal Officers

श्री रवि कुमार आर्य,  
परियोजना अधिकारी एवं  
राज्य नोडल अधिकारी  
XV<sup>th</sup> वित्त आयोग,  
बिहार

**विषय: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में बिहार राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का सहयोग करने का प्रस्ताव**

आदरणीय महोदय,

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) वर्ष 1949 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अपनी स्थापना बाद से भारत में लेखा और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में, सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति (Committee on Public & Government Financial Management – CP&GFM) के माध्यम से ICAI भी कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके, स्थानीय निकायों के अधिकारियों के उपयोग के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित करके भारत में केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकार (ULBs सहित) में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन सुधार में शामिल है। (ई-लर्निंग मॉड्यूल [https://icaitv.com/category.php?cat\\_id=21](https://icaitv.com/category.php?cat_id=21) पर उपलब्ध है।)

ULBs में सुधारों को तेज करने के लिए, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने ULB द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त के रूप में पिछले वर्ष के अलेखापरीक्षित वार्षिक खातों और पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता की सिफारिश की। इसी तरह की सिफारिशें पहले के वित्त आयोगों द्वारा भी की गई थीं; हालांकि, ULB में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सुधार से जुड़ी इन सिफारिशों को ULBs में पर्याप्त सक्षम कर्मियों की उपलब्धता और उनकी क्षमता निर्माण के अभाव में वांछित परिणाम देना बाकी है।

इस दिशा में, ICAI ने CP&GFM के माध्यम से ULBs को राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए 'Accounting & Auditing in ULBs' प्रशिक्षण कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विशेष रूप से संरचित किया जाएगा ताकि ULB कर्मियों को लेखांकन, लेखा परीक्षा और राजस्व में वृद्धि से संबंधित अपने ज्ञान को अद्यतन करने का अवसर प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम के लिए सुझाए गए विषय इसके साथ संलग्न हैं जिन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है। कार्यक्रम/वेबिनार क्षेत्रीय भाषा में भी आयोजित किए जा सकते हैं।

यहां, हम उल्लेख करना चाहेंगे कि हाल ही में, पंजाब राज्य के लिए एक इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पंजाब ULBs के लगभग 150 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था। हमें उम्मीद है कि यह पहल ULB के कर्मचारियों की ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने मददगार साबित होगी।



# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

हमें इस संबंध में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हमें उम्मीद है कि इस सहयोग से ULBs और समाज को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। किसी और स्पष्टीकरण/पूछताछ के लिए कृपया हमें संपर्क करें।

धन्यवाद,

सादर,

**CA केमिशा सोनी**  
अध्यक्ष

**CA श्रीधर मुप्पला**  
उपाध्यक्ष

सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति  
सचिवालय फोन नं.: 0120-3045985  
ई-मेल: [cpf.aslb@icai.in](mailto:cpf.aslb@icai.in); [cpf\\_ga@icai.in](mailto:cpf_ga@icai.in)

**संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार**

